

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 72/2025(GCMS : 2025/89)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड, 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड स्कवायर
मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 302020 स्थानीय शाखा नजदीक
राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़,
श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. दलजीत कौर पत्नी श्री रेशम सिंह निवासी 55 जी.बी. रामसिंहपुर तहसील
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335703 अन्य पता पट्टा
संख्या 15, बुक संख्या 42, गांव 55 जी.बी., ग्राम पंचायत 54 जी.बी.
तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन-335703
2. धर्मवीर सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह निवासी मकान नं. 747, तलवाड़ा
खुर्द-1(121) जिला सिरसा पिन नं. 125102
3. बलविंदर सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह निवासी 55 जी.बी. रामसिंहपुर तहसील
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335703
4. पूना राम पुत्र श्री दयानंद निवासी वार्ड नं. 02 लालगढ़ चौक, 59 जी.बी.
रामसिंहपुर, तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335703

27.03.2025


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री
योगेन्द्र मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत
दिनांक 10.02.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण
दलजीत कौर, धर्मवीर, बलविंदर सिंह एवं पूना राम को ऋण सुविधा के रूप
में 6.30/-लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.07.2018 को
प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 22.10.2024 को 7,99,840/-
रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दलजीत
कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, बुक संख्या 42,
गांव 55 जी.बी, ग्राम पंचायत 54 जी.बी, तहसील अनूपगढ़, श्रीगंगानगर-
335703, जिसके उत्तर दिशा में परगट सिंह, दक्षिण दिशा में चौक, पूर्व दिशा
में सड़क, पश्चिम दिशा में जंग सिंह है, जिसका साईज 4000 वर्गफुट है,
का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की
प्रार्थना की है।

2024
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर



मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण दलजीत कौर, धर्मवीर, बलविंदर सिंह एवं पूना राम को ऋण सुविधा के रूप में 6.30/-लाख रुपये (अखरे रुपये छः लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 28.07.2018 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दलजीत कौर ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, बुक संख्या 42, गांव 55 जीबी, ग्राम पंचायत 54 जीबी, तहसील अनूपगढ, श्रीगंगानगर-335703, जिसके उत्तर दिशा में परगट सिंह, दक्षिण दिशा में चौक, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में जंग सिंह है, जिसका साईज 4000 वर्गफुट है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.03.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गयी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।



जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी दलजीत कौर की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, बुक संख्या 42, गांव 55 जीबी, ग्राम पंचायत 54 जीबी, तहसील अनूपगढ, श्रीगंगानगर-335703, जिसके उत्तर दिशा में परगट सिंह, दक्षिण दिशा में चौक, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में जंग सिंह है, जिसका साईज 4000 वर्गफुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) को नोटिस दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित करवाया है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी दलजीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 15, बुक संख्या 42, गांव 55 जीबी, ग्राम पंचायत 54 जीबी, तहसील अनूपगढ, श्रीगंगानगर-335703, जिसके उत्तर दिशा में परगट सिंह, दक्षिण दिशा में चौक, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में जंग सिंह है, जिसका साईज 4000 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट-
श्रीगंगानगर